



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2003 (चैत्र 8, 1925)
No. 13] NEW DELHI SATURDAY, MARCH 29, 2003 (CHAITRA 8, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 5 मार्च 2003

सं० पीएफ 3014(3)/जी एन-4901/ए एन-I/2003—8000-275-13500 रु० के वेतनमान में विधायी/कार्यकारी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री खाखई जो का क्षेत्रीय परिपत्र कार्यालय, गुवाहाटी में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 5 मार्च, 2003 (अपराह्न) से इस सचिवालय से प्रथम बार में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यमुक्त किया जाता है और तदनन्तर उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति आधार पर विदेश मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 मार्च 2003

सं० पीएफ-2600(3)/ए एन-I/जी एन-4906/2003—10000-325-15200 रु० के वेतनमान में संसदीय भाषांतर-कार ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत श्री जे० के० सिंह को 11 मार्च,

1—512 GI/2002

2003 (अपराह्न) से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति आधार पर संसदीय कार्य मंत्रालय को, माननीय राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चौखलीया) के निजी कर्मचारीवृन्द में अपर निजी सचिव के रूप में, नियुक्ति हेतु सौंपी जाती हैं।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली—110066, दिनांक 3 मार्च 2003

सं० ए-39011/1/2002-प्रशासन—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० एस० एस०) के अवर सचिव श्री वी० चन्द्रशेखरन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को सी०सी०एस० (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48 के अन्तर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2003 के अपराह्न से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

सी० ए० सुब्रमण्यन, उप सचिव

दिनांक 4 मार्च 2003

सं० 19012/1/2003-प्रशासन-राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में, वेतनमान रु० 18,400-22,400/- में संयुक्त सचिव के पद पर सुश्री एम० मणिमैकल (भारतीय विदेश सेवा : 1981) को दिनांक 19 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हों, तदर्थ नियुक्त करते हैं।

सी० ए० सुब्रमण्यन, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं० एफ० 6(1872)/2003-प्रशा०-I-आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 28-1-2003 के कार्यालय आदेश सं० 11016/1/2001-आईईएस के तहत दिए गए आदेशानुसार एसटीएस से आईईएस के जेएजी में तदर्थ पदोन्नति तथा योजना आयोग में उप सलाहकार के रूप में तैनाती के परिणामस्वरूप, श्री आर० एन० तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग ने 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में दिनांक 28-1-2003 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर योजना आयोग में उप सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० एफ० 6(1774)/99-प्रशा० I-ग्रामीण विकास मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए चयन हो जाने के परिणामस्वरूप योजना आयोग में निदेशक (बानिकी), श्री एन० के० सिंह, आईएफएस (जीजे:87) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को, समय से पूर्व समाप्त किया गया है और दिनांक 10-2-2003 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें कार्यभार सौंप दिया जाता है।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं० ए० 32012/6/20032-वि०सा० प्र० (प्रशा०) — श्री सुभाष चन्द्र, प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, तारीख 28 फरवरी, 2003 के अपराह्न

से उक्त कार्यालय में परभार से मुक्त हो गए और उपरोक्त तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

वी० एम० लाबरा, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2003

सं० 14031/1/2003-यू० टी० एस०—अहमदाबाद प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ शासित क्षेत्रों के संयुक्त संगर्ग के 1977 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आर० के० शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28 फरवरी 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2003

सं० 20/जी/2474-प्रशा० I-राष्ट्रपति, श्री टबोम बाम, भा०प्र०से० (एग्नू : 77) को न्याय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 7 मार्च, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं० 13 : (फा० सं० ए 19012/3/2003-प्रशा०-I) — राष्ट्रपति, श्री बी० सिबसुब्रमणियन (भा०सी०शु० एवं के० उ०शु० सेवा : 90) को 31-01-2003 (अपराह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

अर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2003

सं० 1/14/2000-करेंसी-III-राष्ट्रपति, श्री एस० जी० गाडे, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संगर्ग में कर्मशाला इंजीनियर (मेकैनिकल) जो इस समय 8000-275-13500 रु० (समूह 'क' राज-पत्रित) के वेतनमान में इसी संगर्ग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर मुख्य सहायक इंजीनियर (मेकैनिकल) के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 27 जनवरी 2003 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश तक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संगर्ग में नियमित आधार पर मुख्य सहायक इंजीनियर (मेकैनिकल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डा० (सुधी) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप सचिव

सं० 1/17/2000-करेंसी-III—राष्ट्रपति, श्री ए० एस० कोरन्न, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में कर्मशाला इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) जो इस समय उसी संवर्ग में 8000-275-13500 रुपए (समूह "क" राजपत्रित) के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर मुख्य सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 27 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश तक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में नियमित आधार पर मुख्य सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2003

सं० एफ 1/19/2002-करेंसी-III—करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड में उप मुख्य नियंत्रण अधिकारी श्री आर० आर० संह ने अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जनवरी 2003 के अपराह्न से करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड से मुख्य नियंत्रण अधिकारी का पद भार छोड़ दिया है। उक्त दिनांक से करेंसी नोट प्रेस की नामावली से उनका नाम हटा दिया गया है।

डॉ० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप सचिव

दिनांक 3 मार्च 2003

सं० 1/12/2001-करेंसी-III—राष्ट्रपति, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में कारखाना प्रबंधक और उसी संवर्ग में तदर्थ आधार पर 14300-400-18300 रुपए के वेतनमान में इस समय उप महाप्रबंधक (समूह "क" राजपत्रित) के रूप में कार्यरत श्री सुमित सिन्हा को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 28 दिसम्बर, 2002 से और भारत प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में श्री दिनेश कुमार (श्री डी० के० अग्रवाल), मुख्य अभियन्ता द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दाखिल ओ०ए० सं० 719/2002 के परिणाम के अधीन अगले आदेश तक नियमित आधार पर उप महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप सचिव

(वैकींग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं० 2/29/2002-बीओए—सहायक न्यायालय परिसमापक, उच्च न्यायालय, कोलकाता के कार्यालय में सहायक न्यायालय परिसमापक श्री एल० आर० वर्मा अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

ए० थामस, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2003

सं० पीएफजी (2108)/2003-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, श्री विवेक रे, आई०ए०एस० (एजीएमयू : 78) को वे ऑफ लेटरल ट्रांसफर द्वारा दिनांक 4-3-2003 (पूर्वाह्न) से उनकी 5 वर्ष की सामान्य अवधि की बकाया अवधि जो 31-10-2006 है, तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त एवं कंपनो कार्य मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ० हरमीत सिंह, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं० 04/2003 (ए-12022/4/98-स्था०)—श्री के० राजेन्द्र नायर, आई०ए०एस० (पंजाब : 67), वस्त्र मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में वस्त्र आयुक्त (हथकरघा) के रूप में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28 फरवरी 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

गुरदेब सिंह बसरा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 5 मार्च 2003

सं० ए-12023/05/2001-प्रशा०-I (ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड "सी" आशुलिपिक, श्री जितेन्द्र प्रभाकर को 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी अथवा सचिव के रूप में 03-03-2003 (पूर्वाह्न) से अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 7 मार्च 2003

सं० ए-12025/5/98-प्रशा०-I (ए)—श्री के० गंगाराजू, प्रधान निजी सचिव की 10,000-325-15200/- रुपए के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ अधिकारी के रूप में 7-3-2003 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित करते हैं।

बिजय कुमार मन्थन, डेस्क अधिकारी

कृषि मंत्रालय

दिनांक 12 मार्च 2003

(कृषि और सहकारिता विभाग)

पटसन विकास निदेशालय

कोलकाता-700020, दिनांक 12 मार्च 2003

सं० ए-15-295/73—अधोहस्ताक्षरी को डा० एम० के० सरकार, जो पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता, में स्थाई व०त०स० के रूप में कार्यरत थे, को इसी निदेशालय में सहायक निदेशक पद पर वेतनमान रु० 6500-200-10500 में अस्थाई कार्यकारी क्षमता में दिनांक 31 जनवरी, 2003 (अपराहन) के प्रभाव से नियुक्त करते हुए हर्ष हो रहा है।

डा० सन्तोष कुमार विश्वास, निदेशक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-100001, दिनांक 6 मार्च 2003

सं० 5-20/2001-एन० आई-2—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन एच एफ डी सी) के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 50 के अनुसरण में, इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री मृत्युंजय साहू को पूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री निरंजन पंत के स्थान पर एन० एच० एफ० डी० सी० के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

आर० राधाकृष्णन, उप सचिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० पीएफ-429/प्रशा० 1—दूरसंचार विभाग में सहायक महानिदेशक (ईआरयू-एसटीटी) के रूप में कार्यरत भारतीय सांख्यिकी सेवा के श्री सत्यदेव लाल श्रीवास्तव, अधिकारी ग्रेड III (एसटीएस) को अधिवर्षिता की आयु पर उन्हें 31 जनवरी 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

मन मोहन सिंह, अवर सचिव (प्रशा०-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2003

सं० ई(ओ) III-2003/आर एन/01—श्री संजय चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल बिजली इंजीनियर सेवा का इरकॉन में स्थायी समाहन हो जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने 21-10-2002 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर० आर० जारुहार, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ई आर बी-I/2001/2/100—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक, श्री आर० के० खुराना (वेतनमान 5500-9000/-रु०) को 31-1-2003 के पूर्वान्त से तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (वेतनमान 6500-10500/-रु०) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया है।

आर० आर० जारुहार, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं
पदेन अपर सचिव

सं० ई आर बी-I/2002/3/1—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (वेतनमान 6500-10500/-रु०) को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से तदर्थ आधार पर अवर सचिव/उप निदेशक (वेतनमान 10,000-15,200/- रु०) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया है :—

क्रम सं०	नाम	तारीख
	सर्वश्री	
1.	अनिल यादव	3-2-2003
2.	अक्षांश	18-2-2003

आर० आर० जारुहार, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं
पदेन अपर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2003

सं० ए-11013/3/2002-प्रशा/एच एफ एस/एस एस—राष्ट्रपति, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में कार्य कर रहे उप सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), श्री सी० के०पी० सिन्हा की प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिए अर्थात् 12 दिसम्बर, 2002 से 11 दिसम्बर, 2003 तक बढ़ाते हैं।

शारदा अली खान, उप सचिव

दिनांक 13 मार्च 2003

सं० ए-11013/1/2002-प्रशा०/एसएफएस/एसएस—राष्ट्रपति, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में 8,000-275-13,500 रु० के वेतनमान में कार्य कर रहे सहायक सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), श्री गोपाल कृष्ण की प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिए अर्थात् 16 जनवरी, 2003 से 15 जनवरी, 2004 तक बढ़ाते हैं।

शारदा अली खान, उप सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 5th March 2003

No. PF. 3014(3)/GN-4901/AN-I/2003.—Consequent upon his selection for the post of Public Relations Officer at Regional Passport Office, Guwahati on deputation basis, Shri Khakhai Zou, Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 is relieved of his duties in the Secretariat with effect from the afternoon of 5th March, 2003 for a period of one year in the first instance or until further orders whichever is earlier and thereafter his services are placed on the deputation basis at the disposal of Ministry of External Affairs.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

The 11th March 2003

No. PF. 2600(3)/AN-I/GN-4906/2003.—Shri J. K. Singh, Parliamentary Interpreter Grade-I in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 11th March, 2003 and thereafter his services are placed on deputation basis at the disposal of Ministry of Parliamentary Affairs for his appointment as Additional Private Secretary on the personal staff of Hon'ble MOS (Smt. Bhavnaben Chikhahia).

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

(NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi-110066, the 3rd March 2003

No. A-39011/1/2002-Admn.—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri V. Chandrasekharan, CSS, Under Secretary in the National Security Council Secretariat under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from the afternoon of 28th February, 2003.

C. A. SUBRAMANIAN, Dy. Secy.

The 4th March 2003

No. A-19012/1/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. M. Manimekalai, (IFS : 81), as Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- in the National Security Council Secretariat with effect from the forenoon of 19th February, 2003 for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

C. A. SUBRAMANIAN, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 29th January 2003

No. F. 6(1872)/2003-Adm.I.—Consequent on his ad-hoc promotion from STS to JAG of IES and posting as Deputy Adviser in the Planning Commission ordered vide Department of Economic Affairs' Office Order No. 11016/1/2001-IES dated 28-1-2003, Shri R. N. Tewari, Senior Research Officer, Planning Commission has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on ad-hoc basis w.e.f. 28-01-2003 (F/N).

The 7th February 2003

No. F. 6(1774)/99-Admn.I.—Consequent on his selection for appointment as Director in the Ministry of Rural Development on Central Deputation basis, the period of Central Deputation of Shri N. K. Singh, IFS (GJ : 87) as Director (Forestry) in the Planning Commission is pre-maturely curtailed and he is relieved of his duties w.e.f. 10-2-2003 (F/N) to join the Ministry of Rural Development.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

New Delhi, the 28th February 2003

No. A. 32012/6/2003-VSP (Admn.).—On attaining the age of superannuation Shri Subhash Chandra, Publication-cum-Sales Manager, Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law & Justice relinquished the charge of the post in the said office with effect from the afternoon of the 28th February, 2003 and retired from Government service on the aforesaid date.

V. M. LABROO, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th March 2003

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri R. K. Sharma, Indian Police Service Officer of 1977 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service on the afternoon of 28th February, 2003.

K. K. KALRA, Under Secy.

New Delhi, the 13th March 2003

No. 20/G/2474-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Tabom Bam, IAS (AGMU : 77), as Joint Secretary in the Department of Justice with effect from the forenoon of 07th March, 2003, until further orders.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 4th February 2003

No. 13 : (F. No. A. 19012/3/2003-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri V. Sivasubramanian, (IC&CES : 90) as Deputy Secretary in the Department of Revenue for a period of four years w.e.f. 31-01-2003 (A/N) or until further orders, whichever is earlier.

PREETI PANT, Under, Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 19th February 2003

No. 1/14/2000-Cy.III.—The President is pleased to appoint Shri S. G. Gade, Works Engineer (Mechanical) in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road and presently working as Assistant Chief Engineer (Mechanical) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- (Group 'A' - Gazetted) purely on ad-hoc basis in the same cadre, as Assistant Chief Engineer (Mechanical) on regular basis in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, with effect from forenoon of 27th January, 2003 and until further orders.

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

No. 1/17/2000-Cy.III.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Koranne, Works Engineer (Electrical) in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road and presently working as Assistant Chief Engineer (Electrical) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- (Group 'A' - Gazetted) purely on ad-hoc basis in the same cadre, as Assistant Chief Engineer (Electrical) on regular basis in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, with effect from forenoon of 27th January, 2003 and until further orders.

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

The 20th February 2003

No. 1/19/2002-CY-III.—On attaining the age of superannuation Shri R. R. Sah, Deputy Chief Control Officer, Currency Note Press, Nashik Road relinquished charge of the post of Chief Control Officer, Currency Note Press, Nashik Road on 31-01-2003 (Afternoon). His name stands deleted from the rolls of Currency Note Press with effect from the date.

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

The 3rd March 2003

No. 1/12/001-Cy-III.—The President is pleased to appoint Shri Sumit Sinha, Works Manager in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road and presently working as Deputy General Manager (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- purely on adhoc basis in the same cadre, as Deputy General Manager on regular basis in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, with effect from forenoon of 28th December, 2002 and until further orders subject to the outcome of O.A. No. 719/2002 filed by Shri Dinesh Kumar (Shri D. K. Agarwal), Chief Engineer in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, in the Hon'ble CAT, Mumbai.

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 1st January 2003

No. 2/29/2002-BOA.—Shri L. R. Verma, Assistant Court Liquidator in the Office of the Assistant Court Liquidator, High Court, Kolkata stands retired from the Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2002 on attaining the age of superannuation.

A. THOMAS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 11th March 2003

No. PFG(2108)/2003/Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Vivek Rae, IAS (AGMU : 78) as Joint Secretary in the Ministry of Finance & Company Affairs, Department of Expenditure w.e.f. 04-03-2003 (Forenoon) on lateral transfer for the balance period of his normal tenure for five years i.e., upto 31-10-2006 or until further orders, whichever is earlier.

Dr. HARMEET SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 28th February 2003

No. 04/2003 (A-12022, 4/98-Est).—Shri K. Rajendran Nair, IAS (PB : 67), Development Commissioner (Handlooms) in the rank and pay of Secretary to the Government of India, under Ministry of Textiles, retired from Government Service on attainment of the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th Feb., 2003.

G. S. BASRAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 5th March 2003

No. A-12023/05/2001-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Shri Jatinder Prabhakar, a permanent Grade 'C', Stenographers of CSSS cadre of Ministry of Science and Technology as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Ministry of Science and Technology for a period of six months with effect from 03-03-2003 [F/N] or until further orders, whichever is earlier.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

New Delhi-110016, the 7th March 2003

No. A-12025/5/98-Admn.I(A).—The Competent Authority has approved the appointment of Shri K. Gangaraju, IPS as Staff Officer in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis for a period of six months in the Department of Science and Technology with effect from 07-03-2003 (F/N) and until further orders, whichever is earlier.

B. K. MANTHAN, Desk Officer

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRI. & CO-OPERATION)

DIRECTORATE OF JUTE DEVELOPMENT

Kolkata-700020, the 10th February 2003

No. A. 15-295/73.—The Undersigned is pleased to appoint Dr. M. K. Sarkar, a regular S.T.A. in the Directorate of Jute Development, Kolkata to the post of Assistant Director in the same Directorate in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in a temporary officiating capacity w.e.f. the afternoon of 31st January, 2003.

S. K. BISWAS, Director

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 6th March 2003

No. 5-20/2001-NI-II.—In pursuance of Article 50 of Articles of Association of National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFD), the President is pleased to appoint Shri Mrityunjaya Sahoo, Joint Secretary and Financial Adviser in this Ministry as an ex-officio Director on the Board of Directors of NHFD for a period of three years in place of Shri Niranjana Pant, former Joint Secretary and Financial Adviser or until further orders.

R. RADHAKRISHNAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION
TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 31st January 2003

No. PF-429/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Satya Deo Lal Srivastava, an officer Grade-III (STS) of Indian Statistical Service, working in the Department of Telecommunications as Assistant Director General (ERU-STT) shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2003.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy. (Adm.I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th March 2003

No. E(O)II-2003/RN/01.—Consequent upon his permanent absorption in IRCON, Shri Sanjay Chandra, SAG/IRSEE, has resigned from Railway Service with effect from 21-10-2002.

R. R. JARUHAR, Secy.
Railway Board &
Ex-officio Addl. Secy.

The 12th March 2003

No. ERB-I/2001/2/100.—Shri R. K. Khurana, Assistant of Railway Board Secretariat Service (Scale Rs. 5500-9000) has been promoted to officiate as Section Officer (Scale Rs. 6500-10500) of Railway Board Secretariat Service on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 31-01-2003.

R. R. JARUHAR, Secy.
Railway Board and
Ex-officio Addl. Secy.

No. ERB-1/2002/3/1.—The following Section Officers of Railway Board Secretariat Service (Scale Rs. 6500-10,500) have been promoted to officiate as Under Secretary/Dy. Director (Scale Rs. 10,000-15,200) on ad-hoc basis, with effect from the dates as indicated against each :—

1. Anil Yadav, 03-02-03.
2. Akchansh, 18-02-03.

R. R. JARUHAR, Secy.,
Railway Board and
Ex-officio Addl. Secy.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 11th March 2003

No. A-11013/3/2002-Admn./SFS/SS.—The President is pleased to extend the deputation of Shri C. K. P. Sinha, Deputy Commissioner of Security (Civil Aviation) work-

ing in the Bureau of Civil Aviation Security, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of one year i.e. from 12th December, 2002 to 11th December, 2003.

SARADA ALIKHAN, Dy. Secy.

The 13th March 2003

No. A-11013/1/2002-Admn./SFS/SS.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri Gopal Krishan, Assistant Commissioner of Security (Civil Aviation) working in the Bureau of Civil Aviation Security, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- for a period of one year i.e. from 16th January, 2003 to 15th January, 2004.

SARADA ALIKHAN, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, फरीदाबाद द्वारा मंजूर
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकीर्णित 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 2003